



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र 1946 (श10)

(सं० पटना 900) पटना, बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर 2024

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

6 सितम्बर 2024

सं० 4/गठन-02-01/2024 मं०सं०-694—श्री उमेश सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है की अनुशंसा के आलोक में श्री रवीन्द्र कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-324/2023 गृह जिला-नालन्दा, उप विकास आयुक्त, अरवल को दिनांक-27.08.2024 के प्रभाव से श्री उमेश सिंह कुशवाहा, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का आप्त सचिव (सरकारी) नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा उनकी सेवा अगले आदेश तक अथवा माननीय उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा सेवा वापस किये जाने तक होगी।

3. माननीय राज्य मंत्री के पद त्यागने अथवा आप्त सचिव (सरकारी) के पद से हटाये जाने के पश्चात् वे तुरन्त सीधे अपने प्रशासी विभाग में योगदान कर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भी सूचित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

निशीथ वर्मा,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 900-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>